



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1620]  
No. 1620]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 18, 2008/कार्तिक 27, 1930  
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 18, 2008/KARTIKA 27, 1930

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2008

का.आ. 2681(अ).—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में मुन्द्रा से पंजाब राज्य में भठिण्डा तक अपरिष्कृत तेल के परिवहन के लिए एचपीसीएल-मित्तल पाइपलाइन्स लिमिटेड (गुरु गोविन्द सिंह रिफाइनरीज लिमिटेड की समनुषंगी) द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ऐसी भूमि में जो इससे उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित है, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको इस अधिसूचना से युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के लिए उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन के सम्बन्ध में श्री एफ. ए. बाबी, सक्षम प्राधिकारी, मुन्द्रा-भठिण्डा अपरिष्कृत तेल पाइपलाइन परियोजना, एचपीसीएल-मित्तल पाइपलाइन्स लिमिटेड, आदिपुर केम्प आफिस, प्लॉट नं. 186, वार्ड नं. 3-बी, ठागोर रोड, आदिपुर-370 205, कच्छ (गुजरात), को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्वधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए एचपीसीएल-मित्तल पाइपलाइन्स लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

## अनुसूची

तालुका : सांतलपुर		जिला : पाटण	राज्य : गुजरात		
क्रम सं	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	सांतलपुर	151	00	01	54
		152	00	32	45
		181	00	17	40
		153	00	16	20
		180	00	38	40
		179	00	15	36
		सर्वे नंबर 198 में कार्ट ड्राक	00	02	40
		198	00	40	32
		205	00	00	80
		204	00	13	92
		203	00	03	02
		206	00	19	19
		207	00	02	82
		208	00	22	76
		209	00	04	51
		210	00	18	44
		211	00	15	47
		190	00	39	48
		189	00	04	19
		219	00	17	28
2	पर	838	00	08	80
		833/1	00	22	37
		842	00	02	23
		843	00	05	42
		844	00	02	04
		825	00	23	68
		845	00	05	30
		824	00	05	20
		823	00	20	64
		सर्वे नंबर 823 व 819 के बीच में कार्ट ड्राक	00	03	68
		819	00	11	80
		813/1	00	02	79
		815	00	09	57
		814/1	00	07	93
		सर्वे नंबर 814/1 व 794 के बीच में कार्ट ड्राक	00	04	36
		794	00	14	31

तालुका : सांतलपुर		जिला: पाटण	राज्य: गुजरात		
क्रम सं	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
2	पर (जारी)	793	00	13	24
		792	00	08	47
		791	00	13	03
		645	00	33	77
		646	00	06	02
		647	00	28	68
		648	00	18	86
		649	00	11	45
		656	00	09	45
		657	00	08	39
		658	00	19	36
		663/1	00	07	55
		663/2	00	04	84
		सर्वे नंबर 663/2 व 669 के बीच में कार्ट ट्रक	00	11	22
		669	00	22	14
		670	00	15	74
		676	00	09	07
		675	00	06	00
		674	00	04	36
		673	00	01	38
		484	00	10	11
		485	00	03	32
		486	00	07	54
		487	00	06	51
		488	00	08	10
		477/1	00	07	31
		474	00	05	70
		490	00	03	49
		473	00	01	86
		472	00	04	69
		470	00	13	50
		467	00	29	98
		464	00	11	15
		463	00	06	69
		459	00	14	40
		457	00	00	50
		458	00	00	50
		435	00	15	33

तालुका : सांतलपुर		जिला: पाटण	राज्य: गुजरात		
क्रम सं	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
3	छानसरा	48	00	06	76
		49	00	18	12
		50	00	03	70
		51	00	24	27
		53	00	16	72
		सर्वे नंबर 53 व 61 के बीच में कार्ट ट्रक	00	01	17
		61	00	17	03
		65	00	23	94
		64	00	00	50
		66	00	11	44
		74	00	11	17
		81	00	03	52
		82	00	10	50
		85	00	16	42
		84	00	06	37
		सर्वे नंबर 84 व 108 के बीच में कार्ट ट्रक	00	00	95
		108	00	12	57
		88	00	03	35
		107	00	11	06
		सर्वे नंबर 107 व 118 के बीच में कार्ट ट्रक	00	03	01
		118	00	20	54
		119	00	23	43
		116	00	01	16
		120	00	02	98
		164	00	08	12
		165	00	03	17
		166	00	07	39
		186	00	11	59
		187	00	02	90
		188	00	10	29
		190	00	06	70
		189	00	09	87
		192	00	09	64
		193	00	08	63
		सर्वे नंबर 193 व 194 के बीच में कार्ट ट्रक	00	02	00
		194	00	23	15
		195	00	01	44

तालुका : सांतालपुर		जिला : पाटण	राज्य : गुजरात		
क्रम सं	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
3	छानसरा (जारी)	200	00	13	95
		207	00	22	03
		206	00	15	61
		45 पै	00	04	57
4	दर्ईगामडा	32	00	04	63
		19	00	71	00
		17	00	04	92
		20	00	49	06
		13	00	08	74
		12	00	08	76
		11	00	10	72
		28	00	28	30
		सर्वे नंबर 28 व 29 के बीच में कार्ट ट्रक	00	18	91
		36	00	01	43
		34	00	18	14
		सर्वे नंबर 34 व 82/1 के बीच में कार्ट ट्रक	00	01	25
		82/1	00	08	86
		82/2	00	05	85
		83	00	07	29
		सर्वे नंबर 83 व 84 के बीच में कार्ट ट्रक	00	01	60
		84	00	12	28
		90	00	10	40
		89	00	13	24
		103	00	21	89
		104	00	42	59
		105	00	01	56
		126	00	60	22
		125	00	26	71
		सर्वे नंबर 125 व 124 के बीच में कार्ट ट्रक	00	01	64
		124	00	28	11
		119	00	27	84
		123	00	00	60
		120	00	27	50
		121	00	06	64
5	बामरोली	182	00	13	58
		180	00	13	39

तालुका : सांतलपुर		जिला: पाटण	राज्य: गुजरात		
क्रम सं	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
5	बामरोली (जारी)	174	00	11	73
		175	00	12	95
		172	00	20	87
		171/1	00	03	41
		सर्वे नंबर 171/1 व 148 के बीच में राष्ट्रीय मार्ग	00	12	71
		148	00	15	07
		150	00	11	10
		152	00	27	43
		153	00	16	61
		154	00	16	93
		सर्वे नंबर 154 व 128 के बीच में कार्ट ट्रक	00	03	28
		128	00	14	00
		127	00	02	50
		126	00	16	54
		125	00	14	00
		518	00	51	22
		30	00	14	90
		29/1	00	10	40
		28	00	10	84
		27	00	10	60
		25	00	29	14
		22	00	07	69
		21	00	02	48
		20	00	26	21
		सर्वे नंबर 20 व 18 के बीच में कार्ट ट्रक	00	08	90
		18	00	16	76
6	डाभी	44/1	00	10	37
		44/2	00	06	91
7	उनरोट	186	00	12	83
		184	00	10	89
		179	00	03	85
		178	00	25	81
		177	00	13	74
		सर्वे नंबर 177 व 154 के बीच में डामर रास्ता	00	18	66

तालुका : सांतलपुर		जिला: पाटण	राज्य: गुजरात		
क्रम सं	गाँव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
7	उनरोट (जारी)	154	00	07	10
		162	00	18	81
		161	00	02	17
		163	00	12	35
		164	00	14	50
		165	00	59	51
		14	02	73	66
		246	00	09	82
		85	00	38	59
		सर्वे नंबर 85 व 18 के बीच में ढामर रास्ता	00	01	56
		18	00	46	78
		25	00	27	43
		26	00	25	20
		27	00	41	47
		47	00	19	36
		38	00	38	89
		37	00	11	63
		40	00	13	52
		42	00	00	50
		41	00	39	95
8	जारुसा	146	00	18	18
		149	00	10	28
		150	00	18	00
		142	00	15	94
		151	00	15	26
		53	01	20	67
		304	00	06	91
		306	00	21	17
		303/1	00	08	04
		303/2	00	10	44
		302	00	08	11
		300	00	06	13
		301	00	01	70
		298	00	14	89
		297	00	15	98
9	झेकडा	581	00	13	37
		582	00	09	03

तालुका : सांतलपुर		जिला: पाटण	राज्य: गुजरात		
क्रम सं	गोंव का नाम	सर्वे संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
9	झेकडा (जारी)	583	00	10	36
		585	00	10	00
		591	00	10	35
		592	00	10	35
		593	00	04	84
		सर्वे नंबर 594 व 610 के बीच में कार्ट ट्रक	00	01	59
		610	00	15	47
		611	00	00	50
		607	00	08	74
		627	00	17	70
		628	00	25	22
		सर्वे नंबर 628 व 7 के बीच में मेटल्ड रास्ता	00	05	37
		7	00	08	40
		सर्वे नंबर 7 व 6 के बीच में कार्ट ट्रक	00	00	72
		6	00	05	42
		5	00	05	52
		4	00	05	24
		23	00	04	59
		24	00	07	44
		सर्वे नंबर 24 व 87 के बीच में कार्ट ट्रक	00	00	98
		87	00	02	94
		86	00	05	70
		85	00	06	86
		सर्वे नंबर 85 व 108 के बीच में कार्ट ट्रक	00	01	36
		108	00	10	32
		सर्वे नंबर 108 व 107 के बीच में कार्ट ट्रक	00	03	35
		107	00	17	17
		106	00	02	44
		105	00	04	08
		101	00	01	40
		102	00	16	31
		सर्वे नंबर 102 व 270 के बीच में कार्ट ट्रक	00	04	34
		270	00	03	16
		268	00	13	09
		266	00	17	77
		264	00	03	62



तालुका : सातलपुर		जिला: पाटण	राज्य: गुजरात		
क्रम सं	गोंव का नाम	सर्वे सँख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
9	झेकडा (जारी)	261	00	21	97
		262	00	18	52
		254	00	04	86
		253	00	07	92
		251	00	01	08
		255	00	05	10
		250	00	34	05
		249	00	03	12
		245	00	12	17
		246	00	09	83
		238	00	29	69

[फा. सं. आर-31015/37/2008-ओआर-II]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th November, 2008

**S.O. 2681(E).**—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Crude Oil from Mundra in the State of Gujarat to Bathinda in the State of Punjab, a pipeline should be laid by HPCL - Mittal Pipelines Limited, (a subsidiary of Guru Gobind Singh Refineries Limited);

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri F. A. Babi, Competent Authority, Mundra Bathinda Crude Oil Pipeline Project,

HPCL - Mittal Pipelines Limited, Adipur Camp Office, Plot no-186, Ward No. 3-B, Tagore Road, Adipur – 370 205, Kutch (Gujarat).

HPCL - Mittal Pipelines Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE					
Taluka : SANTALPUR		District : PATAN		State : GUJARAT	
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	SANTALPUR	151	00	01	54
		152	00	32	45
		181	00	17	40
		153	00	16	20
		180	00	38	40
		179	00	15	36
		Cart track in Survey number 198	00	02	40
		198	00	40	32
		205	00	00	80
		204	00	13	92
		203	00	03	02
		206	00	19	19
		207	00	02	82
		208	00	22	76
		209	00	04	51
		210	00	18	44
		211	00	15	47
		190	00	39	48
		189	00	04	19
		219	00	17	28
2	PAR	838	00	08	80
		833/1	00	22	37
		842	00	02	23
		843	00	05	42
		844	00	02	04
		825	00	23	68
		845	00	05	30
		824	00	05	20
		823	00	20	64
		Cart track in between Survey number 823 and 819	00	03	68
		819	00	11	80
		813/1	00	02	79
		815	00	09	57
		814/1	00	07	93
		Cart track in between Survey number 814/1 and 794	00	04	36
		794	00	14	31

Taluka : SANTALPUR		District : PATAN	State : GUJARAT		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
2	PAR (Contd.)	793	00	13	24
		792	00	08	47
		791	00	13	03
		645	00	33	77
		646	00	06	02
		647	00	28	68
		648	00	18	86
		649	00	11	45
		656	00	09	45
		657	00	08	39
		658	00	19	36
		663/1	00	07	55
		663/2	00	04	84
		Cart track in between Survey number 663/2 and 669	00	11	22
		669	00	22	14
		670	00	15	74
		676	00	09	07
		675	00	06	00
		674	00	04	36
		673	00	01	38
		484	00	10	11
		485	00	03	32
		486	00	07	54
		487	00	06	51
		488	00	08	10
		477/1	00	07	31
		474	00	05	70
		490	00	03	49
		473	00	01	86
		472	00	04	69
		470	00	13	50
		467	00	29	98
		464	00	11	15
		463	00	06	69
		459	00	14	40
		457	00	00	50
		458	00	00	50
		435	00	15	33

Taluka : SANTALPUR		District : PATAN	State : GUJARAT		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
3	CHHANSARA	48	00	06	76
		49	00	18	12
		50	00	03	70
		51	00	24	27
		53	00	16	72
		Cart track in between Survey number 53 and 61	00	01	17
		61	00	17	03
		65	00	23	94
		64	00	00	50
		66	00	11	44
		74	00	11	17
		81	00	03	52
		82	00	10	50
		85	00	16	42
		84	00	06	37
		Cart track in between Survey number 84 and 108	00	00	95
		108	00	12	57
		88	00	03	35
		107	00	11	06
		Cart track in between Survey number 107 and 118	00	03	01
		118	00	20	54
		119	00	23	43
		116	00	01	16
		120	00	02	98
		164	00	08	12
		165	00	03	17
		166	00	07	39
		186	00	11	59
		187	00	02	90
		188	00	10	29
		190	00	06	70
		189	00	09	87
		192	00	09	64
193	00	08	63		
Cart track in between Survey number 193 and 194	00	02	00		
194	00	23	15		
195	00	01	44		
200	00	13	95		
207	00	22	03		
206	00	15	61		
45P	00	04	57		

Taluka : SANTALPUR		District : PATAN		State : GUJARAT	
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
4	DIAGAMDA	32	00	04	63
		19	00	71	00
		17	00	04	92
		20	00	49	06
		13	00	08	74
		12	00	08	76
		11	00	10	72
		28	00	28	30
		Cart track in between Survey number 28 and 29	00	18	91
		36	00	01	43
		34	00	18	14
		Cart track in between Survey number 34 and 82/1	00	01	25
		82/1	00	08	86
		82/2	00	05	85
		83	00	07	29
		Cart track in between Survey number 83 and 84	00	01	60
		84	00	12	28
		90	00	10	40
		89	00	13	24
		103	00	21	89
		104	00	42	59
		105	00	01	56
		126	00	60	22
		125	00	26	71
		Cart track in between Survey number 125 and 124	00	01	64
		124	00	28	11
		119	00	27	84
		123	00	00	60
		120	00	27	50
		121	00	06	64
5	BAMROLI	182	00	13	58
		180	00	13	39
		174	00	11	73
		175	00	12	95
		172	00	20	87
		171/1	00	03	41
		National Highway in between Survey number 171/1 and 148	00	12	71
		148	00	15	07
		150	00	11	10
		152	00	27	43
		153	00	16	61
		154	00	16	93

Taluka : SANTALPUR		District : PATAN	State : GUJARAT		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
5	BAMROLI (Contd.)	Cart track in between Survey number 154 and 128	00	03	28
		128	00	14	00
		127	00	02	50
		126	00	16	54
		125	00	14	00
		518	00	51	22
		30	00	14	90
		29/1	00	10	40
		28	00	10	84
		27	00	10	60
		25	00	29	14
		22	00	07	69
		21	00	02	48
		20	00	26	21
		Cart track in between Survey number 20 and 18	00	08	90
		18	00	16	76
6	DABHI	44/1	00	10	37
		44/2	00	06	91
7	UNROT	186	00	12	83
		184	00	10	89
		179	00	03	85
		178	00	25	81
		177	00	13	74
		Asphalted road in between Survey number 177 and 154	00	18	66
		154	00	07	10
		162	00	18	81
		161	00	02	17
		163	00	12	35
		164	00	14	50
		165	00	59	51
		14	02	73	66
		246	00	09	82
		85	00	38	59
		Asphalted road in between Survey number 85 and 18	00	01	56
		18	00	46	78
		25	00	27	43
		26	00	25	20
		27	00	41	47
		47	00	19	36
		38	00	38	89

Taluka : SANTALPUR		District : PATAN		State : GUJARAT	
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
7	UNROT (Contd.)	37	00	11	63
		40	00	13	52
		42	00	00	50
		41	00	39	95
8	JARUSA	146	00	18	18
		149	00	10	28
		150	00	18	00
		142	00	15	94
		151	00	15	26
		53	01	20	67
		304	00	06	91
		306	00	21	17
		303/1	00	08	04
		303/2	00	10	44
		302	00	08	11
		300	00	06	13
		301	00	01	70
		298	00	14	89
		297	00	15	98
9	ZEKADA	581	00	13	37
		582	00	09	03
		583	00	10	36
		585	00	10	00
		591	00	10	35
		592	00	10	35
		593	00	04	84
		Cart track in between Survey number 594 and 610	00	01	59
		610	00	15	47
		611	00	00	50
		607	00	08	74
		627	00	17	70
		628	00	25	22
		Metalled road in between Survey number 628 and 7	00	05	37
		7	00	08	40
		Cart track in between Survey number 7 and 6	00	00	72
		6	00	05	42
		5	00	05	52
		4	00	05	24
		23	00	04	59
		24	00	07	44
		Cart track in between Survey number 24 and 87	00	00	98
		87	00	02	94

Taluka : SANTALPUR		District : PATAN		State : GUJARAT	
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
9	ZEKADA (Contd.)	86	00	05	70
		85	00	06	86
		Cart track in between Survey number 85 and 108	00	01	36
		108	00	10	32
		Cart track in between Survey number 108 and 107	00	03	35
		107	00	17	17
		106	00	02	44
		105	00	04	08
		101	00	01	40
		102	00	16	31
		Cart track in between Survey number 102 and 270	00	04	34
		270	00	03	16
		268	00	13	09
		266	00	17	77
		264	00	03	62
		261	00	21	97
		262	00	18	52
		254	00	04	86
		253	00	07	92
		251	00	01	08
		255	00	05	10
		250	00	34	05
		249	00	03	12
		245	00	12	17
		246	00	09	83
		238	00	29	69

[F. No. R-31015/37/2008-OR-II]

A. GOSWAMI, Under Secy.